

इस अंक में

सांप्रदायिक घटनाएं	3-5	सांप्रदायिक रणनीति	6-13	
सांप्रदायिक हिंसा और तनाव <ul style="list-style-type: none"> हिमाचल में बलात्कार के बाद तनाव पंजाब के ग्रामीण इलाके में तनाव गुजरात में तनाव महाराष्ट्र में सोशल पोस्ट से तनाव केरल में हत्या के बाद तनाव की स्थिति पंजाब में धार्मिक ग्रंथ फाड़ने पर तनाव उत्तरप्रदेश में मृत गाय मिलने पर पर हिंसा उत्तराखंड में तनाव कर्नाटक में धार्मिक स्थल में मांस मिलने से तनाव कर्नाटक में सोशल पोस्ट पर विवाद 		<ul style="list-style-type: none"> गोबर से बन सकता है सेना का बंकर: आरएसएस कोकरझार में अल्पसंख्यक नेता की हत्या बिहार में गोमांस के संदेह में 3 की पिटाई बिहार में गाँव का नाम बदलने का अभियान बिहार में गोरक्षकों का हमला मुगलसराय रेलवे स्टेशन के नाम पर राजनीति महाराष्ट्र में गोरक्षकों की पिटाई राजस्थान में सरकारी पत्रों में लगेगा दीनदयाल उपाध्याय का लोगो उत्तराखंड ,हरियाणा में गोरक्षकों को मिलेगा पहचान पत्र पश्चिम बंगाल में भाजपा और आरएसएस की रणनीति पश्चिम बंगाल में माँब लिंगिंग आरएसएस का न्यूज वीडियो महाराष्ट्र में विहिप देगी गोरक्षकों को पहचान पत्र शबरी का राजनीतिकरण ओडिशा में विहिप नेता की पुण्य तिथि का आयोजन आरएसएस करेगा फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कांग्रेस नेता सलमान निजामी को धमकी केरल में राजनीतिक हिंसा की संस्कृति केरल में आरएसएस के प्रसार की रणनीति उत्तरप्रदेश में बजरंग दल ने लव जेहाद का आरोप में पीटा आंध्रप्रदेश में हटाए गए मंदिरों के पुर्ननिर्माण को लेकर प्रदर्शन गरबा पर राजनीति मध्यप्रदेश में धर्मांतरण का विवाद हरिद्वार में बनेगा गो तीर्थ भाजपा नेता की गोशाला में 200 गायों की मौत आवारा जानवरों पर एसिड अटैक से विवाद मथुरा में आरएसएस का तीन दिवसीय कार्यक्रम मिलिट्री फार्म होंगे बंद ,हिंदुत्ववादी संगठन ने की आपत्ति मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने किया बकरीद पर विवाद जम्मू में सिखों पर हमला तेलंगाना में भाजपा की सात दिवसीय यात्रा 		
शिक्षा का भगवाकरण	13-14			
<ul style="list-style-type: none"> आरएसएस विचारक की जन्म शती पर स्कूलों में आयोजन इतिहास की किताब पर आईसीएचआर की आपत्ति महाराष्ट्र सरकार ने हटाया मुगलों पर पाठ गुजरात विश्वविद्यालय की किताबों में अहमदाबाद हुआ 'कर्णावती' उत्तरप्रदेश और हरियाणा के पाठ्यक्रम में आरएसएस विचारकों पर पाठ हरियाणा विश्वविद्यालय में गाय पर जोर महाराष्ट्र सरकार ने खरीदी आरएसएस की किताबें 				
न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रिया	15-18			
<ul style="list-style-type: none"> दादरी लिंगिंग केस में मुख्य आरोपी को जमानत गोरखपुर दंगा: योगी पर मुकदमे की याचिका स्वीकृत ससिकुमार हत्याकांड में संदिग्ध गिरफ्तार कामेश्वर यादव की रिहाई के खिलाफ याचिका दक्षिण कर्नाटक में इंटेलेजेंस में हैं कमियाँ सूत्रखेड़ा हत्याकांड: आरएसएस कार्यकर्ताओं की रिहाई अयोध्या विवाद पर दिसंबर में सुनवाई रामगढ़ लिंगिंग: फास्ट ट्रेक कोर्ट में होगी सुनवाई वड़ोदरा दंगे में दो अपराधियों पर शक बंटवाल हत्याकांड में पीएफआई कार्यकर्ता गिरफ्तार सिख दंगे मामले में समिति करेगी तीन महीने जाँच 				
		सांप्रदायिक घटनाओं का आँकड़ा	19	
		उत्तरप्रदेश में सबसे ज्यादा सांप्रदायिक घटनाएं		

न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रिया

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • मुजफ्फरनगर दंगे में 13 लोग रिहा • उत्तरप्रदेश में पुलिस थानों में मनेगी जन्माष्टमी • बांबे हाइकोर्ट: मीट ट्रेडर्स को सुरक्षा दे सरकार • भाजपा आईटी सेल के सेक्रेटरी की जमानत अस्वीकृत • केरल में आपत्तिजनक पैम्फलेट बाँटने पर गिरफ्तारी • सांप्रदायिक तनाव से रोकने के लिए विसर्जन का दिन टाला | <ul style="list-style-type: none"> • नरोदा गाम केस की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी • केरल पुलिस की रिपोर्ट में धर्मांतरण की पुष्टि • सुप्रीम कोर्ट: गुजरात सरकार की मुआवजा नीति से हो धर्म-स्थलों की क्षति का आकलन • हिंडोली वीडियो जाँच में फर्जी साबित • शाहजहाँपुर में सोशल पोस्ट पर गिरफ्तारी • नरोदा पाटिया दंगा: गुजरात हाइकोर्ट ने याचिकाओं पर फैसला किया सुरक्षित • मालेगाँव केस में कर्नल पुरोहित को सशर्त जमानत |
|---|--|

सांप्रदायिक घटनाएं

सांप्रदायिक हिंसा एवं तनाव

घटनाएं	सम्मिलित संगठन/समूह	दिनांक और घटना स्थल
<p>हिमाचल में बलात्कार के बाद तनाव</p> <p>चंबा के तिस्सा में हाईस्कूल की एक मुस्लिम छात्रा के साथ बलात्कार मामले में सांप्रदायिक विवाद हुआ। पुलिस से नाराज लोगों ने स्कूल पर पथराव किया। तीन दिनों तक चली हिंसा में तीसा में कई दुकानों में तोड़-फोड़ हुई। इस विवाद में कांग्रेस और भाजपा दोनों ने एक-दूसरे पर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का आरोप लगाया।</p> <p>http://indianexpress.com/article/india/rape-charge-twin-attacks-shatter-peace-of-himachal-village-khushnagri-4786903/ Date Accessed:8/08/2017</p>	<p>स्थानीय समुदाय</p>	<p>29/07/2017 तिस्सा, चंबा (हिमाचल प्रदेश)</p>
<p>पंजाब के ग्रामीण इलाके में तनाव</p> <p>अमृतसर के गाँव तलवंडी भांगवा में गुरु ग्रंथ साहिब की प्रति जलाने से तनाव हुआ। इस मामले में गाँव का ही एक व्यक्ति आरोपी है। आरोपी की गिरफ्तारी के दौरान गाँव के 20- 25 लोगों ने पुलिस पर हमला किया और आरोपी को छुड़ाने की कोशिश की। इस संबंध में अज्ञात लोगों सहित तीन नामजद व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है।</p> <p>http://indianexpress.com/article/india/desecration-at-amristar-village-fir-against-villagers-for-thrashing-sho-holding-him-captive-ranjit-masih-guru-granth-sahib-torn-4788924/ Date Accessed:9/08/2017</p>	<p>स्थानीय समुदाय</p>	<p>8/08/2017 तलवंडी भांगवा, अमृतसर (पंजाब)</p>
<p>गुजरात में तनाव</p> <p>सूरत के मोटा वराह में तनाव हुआ। एक पाटीदार युवती की एक महीने पहले अपने समुदाय के ही एक परिवार में शादी हुई थी। लेकिन युवती अपने घर वापस लौट आयी और पड़ोस में रहने वाले मुस्लिम युवक के साथ भाग गयी। परिवार के लोगों ने इसके खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराया और बेटी बचाओ जनजागृति अभियान का आयोजन करने का फैसला किया जिसे प्रशासन से अनुमति नहीं मिली।</p> <p>http://indianexpress.com/article/cities/tension-in-surat-after-patidar-woman-elope-with-muslim-youth-4794337/ Date Accessed:13/08/2017</p>	<p>स्थानीय समुदाय</p>	<p>12/08/2017 मोटा वराह, सूरत (गुजरात)</p>
<p>महाराष्ट्र में सोशल पोस्ट से तनाव</p> <p>नागपुर के नारखेड़ में व्हाटसएप ग्रुप को लेकर तनाव हुआ। वंदेमातरम नारखेड़ ग्रुप पर कई भड़काऊ संदेश प्रसारित होने को लेकर आपत्ति हुई। इस विवाद में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने इसके सदस्य सुभाष बाघे के साथ मार-पीट की। बाघे के अज्ञात समर्थकों ने इसके खिलाफ मुस्लिमों का बहिष्कार करने संबंधी पैम्फलेट जारी किया। इस मामले में दोनों पक्षों के लोगों को गिरफ्तार किया</p>	<p>स्थानीय समुदाय</p>	<p>(जुलाई का अंतिम सप्ताह) नारखेड़, नागपुर (महाराष्ट्र)</p>

<p>गया। http://indianexpress.com/article/india/whatsapp-messages-pamphlets-calling-for-boycott-of-muslims-fuel-tension-in-narkhed-4795583/ Date Accessed:14/08/2017</p>		
<p>केरल में हत्या के बाद तनाव की स्थिति केरल के मलप्पुरम में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के बाद तनाव की स्थिति बनी। मृतक विपिन फैजल हत्याकांड में आरोपी लोगों में से एक था। इस्लाम धर्म अपनाने के कारण अनीश उर्फ फैजल की हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में विपिन कुछ ही समय पहले जेल से जमानत पर रिहा हुआ था। http://www.hindustantimes.com/india-news/rss-worker-stabbed-on-roadside-in-kerala-communal-tensions-might-flare-up/story-ZVuzYgLnODETZsRmLWVj4K.html Date Accessed:24/08/2017</p>		<p>24/08/2017 मलप्पुरम (केरल)</p>
<p>पंजाब में धार्मिक ग्रंथ फाड़ने पर तनाव संगरूर जिले के मलेरकोटला में कुरान शरीफ के फटे पन्ने मिलने पर तनाव हुआ। मलेरकोटला में इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है। इस मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 295 A के तहत अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है। पुलिस इस मामले में सीसीटीवी फुटेज की जाँच की है लेकिन खबर लिखे जाने तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। http://timesofindia.indiatimes.com/city/chandigarh/torn-pages-of-religious-book-spotted-cops-investigate/articleshow/60149933.cms Date Accessed:21/08/2017</p>	<p>अज्ञात</p>	<p>20/08/2017 मलेरकोटला, संगरूर (पंजाब)</p>
<p>उत्तरप्रदेश में मृत गाय मिलने पर हिंसा बुलंदशहर जिले के गाँव अडौली में मरी हुई गाय मिलने के बाद हिंसा हुई। दोनों समुदायों में पथराव के दौरान किसी के घायल होने की खबर नहीं है। बताया जाता है कुछ लोगों ने यहाँ स्थित दो मस्जिदों में घुसकर तोड़-फोड़ की जिसमें हिंदू युवावाहिनी के लोग शामिल थे। इस विवाद में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया। https://thewire.in/171113/mob-attack-cow-carcass-up/ http://indianexpress.com/article/cities/delhi/10-held-after-clashes-over-cow-carcass-in-bulandshahr-village-4815399/ Date Accessed:27/08/2017</p>	<p>हिंदू युवावाहिनी, स्थानीय समुदाय</p>	<p>25/08/2017 अडौली)बुलंदशहर(</p>
<p>उत्तराखंड में तनाव पौड़ी के सतपुली कस्बे में बछड़े के साथ यौनकृत्य करने के मामले में तनाव हुआ। पुलिस के अनुसार 23 साल के एक मुस्लिम युवक को एक गौशाला के भीतर लोगों ने पकड़ा और पशु के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने की पुलिस शिकायत दर्ज करायी। घटना के विरोध में विहिप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इससे पहले 9 जुलाई को भी कस्बे में एक अन्य मामले में तनाव हुआ था। http://www.hindustantimes.com/dehradun/communal-tension-grips-satpuli-after-man-caught-in-act-of-bestiality/story-88G2VTKbB9dQoMqxV4JCAI.html Date Accessed:2/08/2017</p>	<p>विश्व हिंदू परिषद</p>	<p>25/08/2017 सतपुली कस्बे, पौड़ी (उत्तराखंड)</p>
<p>कर्नाटक में धार्मिक स्थल में मांस मिलने से तनाव कोडागू जिले के नेपोकलू में जानवरों का खुर मिलने के बाद तनाव हुआ। जानवरों के अंग के हिस्से कपड़े में बाँधकर एक मंदिर के दरवाजे पर लटकाया गया था। घटना के विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने रास्ता जाम किया। इस घटना को लेकर मेडिकेरी में भी विरोध आयोजित किया गया।</p>	<p>हिंदूवादी संगठन</p>	<p>30/08/2017 नेपोकलू, कोडागू (कर्नाटक)</p>

http://www.thehindu.com/news/national/karnataka/tension-in-napoklu-after-hooves-found/article19590169.ece Date Accessed:31/08/2017		
<p>कर्नाटक में सोशल पोस्ट पर विवाद</p> <p>तटीय कर्नाटक में एक सोशल पोस्ट को लेकर विवाद हुआ। अराजक तत्वों ने हिंदू देवी श्री दुर्गापरमेश्वरय को लेकर 29 अगस्त को एक आपत्तिजनक पोस्ट लगाया था। कई हिंदुत्ववादी संगठनों ने इसका विरोध किया और पुलिस शिकायत दर्ज करायी। अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधियों ने भी इस घटना का कड़ा विरोध किया।</p> <p>http://indiatoday.intoday.in/story/karnataka-facebook-post-hindu-goddess-unrest/1/753058.html Date Accessed:31/08/2017</p>	हिंदुत्ववादी संगठन	29/08/2017 तटीय कर्नाटक

सांप्रदायिक रणनीतियां

सांप्रदायिक संगठन

रणनीतियां	सम्मिलित संगठन
<p>गोबर से बन सकता है सेना का बंकर: आरएसएस</p> <p>आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि गाय के गोबर से बंकर बनाया जा सकता है। इन्द्रेश कुमार ने लोगों से कहा कि वे सीमेंट की जगह घर बनाने के लिए गाय के गोबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आरएसएस नेता फोरम फॉर अवेयरनेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी के कार्यक्रम में बोल रहे थे। संस्था ने लेह से कन्याकुमारी तकगोसेवा सदभावना पदयात्रा का आयोजन भी किया है।</p> <p>http://indianexpress.com/article/india/rss-leader-indresh-kumar-calls-cow-meat-as-poison-says-dung-can-be-used-to-make-bunkers-4779363/ Date Accessed:2 /08/2017</p>	राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
<p>कोकराझार में अल्पसंख्यक नेता की हत्या</p> <p>कोकराझार में आल बोडोलैंड माइनोंरिटी स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष लफीकुल इस्लाम अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गयी। इस हत्या से कोकराझार में तनाव हुआ। लफीकुल अल्पसंख्यक मुद्दों पर काफी सक्रिय रहते थे। मुस्लिम कल्याण परिषद, असम और आल असम बंगाली युवा छात्र फेडरेशन ने इस हत्या की निंदा की।</p> <p>http://www.hindustantimes.com/india-news/bodoland-muslim-student-leader-shot-dead-in-kokrajhar/story-gmf0iCK4sn6La7slohha8J.html Date Accessed:2 /08/2017</p>	अज्ञात
<p>बिहार में गोमांस के संदेह में 3 की पिटाई</p> <p>भोजपुर जिले में कथित रूप से गोमांस ले जाने के आरोप में भीड़ ने 3 लोगों को पीटा। इस घटना में एक ड्राइवर सहित वाहन में सवार 2 और लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि गौरक्षक संगठन के लोगों ने संदेह के आधार पर एक वाहन को रोका। यह घटना पटना से 50 किमी दूर शाहपुर की है। पीटे गए लोगों ने बयान दिया है कि वे भैंस का मांस ले जा रहे थे।</p> <p>http://www.ndtv.com/india-news/3-men-accused-of-carrying-beef-attacked-by-cow-vigilantes-in-bihar-1733183 Date Accessed:3 /08/2017</p>	गौरक्षक संगठन
<p>बिहार में गाँव का नाम बदलने का अभियान</p> <p>बिहार के वैशाली जिले के गाँव शाहपुर का नाम शिवपुर करने की माँग की गयी। हिंदू पुत्र संगठन शाहपुर कासिम का नाम शिवपुर करने के लिए डेढ़ साल से अभियान चला रहा है। संगठन ने एक हवन का आयोजन किया और कई जगह पर शिवपुर नाम के बैनर लगाए।</p> <p>http://timesofindia.indiatimes.com/city/patna/bajrang-havan-to-rename-vaishali-village-after-lord-shiva/articleshow/59904984.cms http://www.bbc.com/hindi/india-40830964 Date Accessed:5/08/2017</p>	हिंदू पुत्र संगठन
<p>बिहार में गोरक्षकों का हमला</p> <p>बिहार के चंपारण जिले के गाँव डुमरा में गोरक्षकों ने एक मुस्लिम व्यक्ति के घर पर हमला</p>	विश्व हिंदू परिषद

<p>किया और उसके आस-पास के घरों को भी निशाना बनाया। खबर के मुताबिक भीड़ में विहिप के लोग भी शामिल थे। उन्होंने भारत माता की जय का नारा लगाया और गोमांस खाने का आरोप लगाकर मुस्लिम समुदाय के सात लोगों को पीटा। पुलिस ने इस मामले में पीड़ित लोगों पर ही केस दर्ज किया है।</p> <p>https://thewire.in/169013/cow-vigilante-attack-bihar/ http://aajtak.intoday.in/crime/story/7-muslim-men-thrashed-beef-rumours-then-arrested-bihar-1-947529.html Date Accessed:19/08/2017</p>	
<p>मुगलसराय रेलवे स्टेशन के नाम पर राजनीति</p> <p>उत्तरप्रदेश में मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के प्रस्ताव को लेकर विवाद हुआ। उत्तरप्रदेश की भाजपा सरकार ने इसे बदलकर दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर करने का फैसला किया था। भारत सरकार के गृहमंत्रालय से इसे अनुमति मिल गयी। भाजपा का कहना है कि जनसंघ नेता दीनदयाल उपाध्याय का शव मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर मिला था इसलिए सरकार उसे दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर करना चाहती है।</p> <p>http://www.firstpost.com/politics/mughalsarai-railway-station-renamed-bjp-on-overdrive-to-project-deen-dayal-upadhyaya-as-national-icon-3892461.html Date Accessed:4 /08/2017</p>	<p>उत्तरप्रदेश सरकार, भारत सरकार</p>
<p>महाराष्ट्र में गोरक्षकों की पिटाई</p> <p>अहमदनगर जिले में कथित तौर पर 50 लोगों ने अखिल भारतीय कृषि गो सेवा संघ के कार्यकर्ताओं पर हमला किया। इससे पहले संगठन ने पुलिस के साथ मिलकर संदेह के आधार पर एक टेम्पो को रोका था जिसमें अवैध तरीके से गायों को बूचड़खाने ले जाया जा रहा था। इस विवाद में वाहन चालक और उसके मालिक को गिरफ्तार कर महाराष्ट्र पशु संरक्षण कानून के तहत मामला दर्ज किया गया।</p> <p>https://scroll.in/latest/846282/mob-beats-up-gau-rakshaks-in-ahmednagar-after-they-stop-tempo-carrying-cows-for-slaughter Date Accessed:6/08/2017</p>	<p>अखिल भारतीय कृषि गो सेवा संघ, अज्ञात लोग</p>
<p>राजस्थान में सरकारी पत्रों में लगेगा दीनदयाल उपाध्याय का लोगो</p> <p>भाजपा ने राजस्थान में भाजपा के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, मंत्रियों को लेटरहेड पर दीनदयाल उपाध्याय का चित्र लगाने के लिए कहा है। जयपुर में एक सभा के दौरान इस संबंध में निर्देश जारी किया गया कि सभी कार्यालयी बात-चीत के लिए भी आरएसएस विचारक दीनदयाल उपाध्याय का लोगो इस्तेमाल किया जाए।</p> <p>http://www.hindustantimes.com/india-news/rss-icon-deendayal-upadhyay-s-image-to-feature-in-official-correspondence-of-rajasthan-govt/story-S1aMkPloNtqCLcqRYhmaFP.html Date Accessed:6/08/2017</p>	<p>भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान</p>
<p>उत्तराखंड, हरियाणा में गोरक्षकों को मिलेगा पहचान पत्र</p> <p>उत्तराखंड और हरियाणा में सरकार की ओर गोरक्षक संगठनों को विशेष पहचान पत्र दिया जाएगा। उत्तराखंड गो सेवा आयोग ने कहा है कि इससे वास्तव में गाय के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं और अराजक तत्वों के बीच फर्क किया जा सकेगा। इस संबंध में राज्य के 13 जिलों के डीएम को निर्देश जारी किया गया है। इसके अलावा हरियाणा में हर जिले से गोरक्षक बनने के लिए आवेदन माँगा गया था जिन्हें सरकार की ओर से पहचान पत्र</p>	<p>उत्तराखंड सरकार, हरियाणा सरकार</p>

<p>जारी किया जाएगा। http://timesofindia.indiatimes.com/city/dehradun/aadhaar-linked-unique-ids-for-ukhand-cow-vigilantes/articleshow/59937158.cms http://www.firstpost.com/india/haryana-uttarakhand-to-have-licensed-gau-rakshaks-govt-accredited-commission-for-protection-of-cows-3904541.html Date Accessed:7/08/2017</p>	
<p>पश्चिम बंगाल में भाजपा और आरएसएस की रणनीति</p> <p>भाजपा का समर्थन बढ़ा पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में सांप्रदायिक तनाव के बाद यह कहा जा रहा है कि सीमांत इलाकों में भाजपा के लिए समर्थन बढ़ रहा है। अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव के परिणामों के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि हिंदुत्ववादी राजनीति का आधार बंगाल में कितना बढ़ा है। https://scroll.in/article/846298/how-support-for-the-bjp-has-grown-after-last-years-communal-riot-in-west-bengals-dhulagarh Date Accessed:9/08/2017</p> <p>शस्त्र प्रदर्शन का आयोजन पिछले साल रामनवमी के आयोजन के बाद आरएसएस दशहरे पर शस्त्र पूजा और शस्त्र प्रदर्शन का आयोजन करेगी। इस दौरान तलवार, फरसा और बंदूकों की पूजा की जाएगी। विजयदशमी पर शस्त्र पूजा का आयोजन बंगाल में प्रचलित नहीं रहा है। पारंपरिक रूप से वहाँ सिंदूर खेला का आयोजन होता है। इस बार दशहरा और मुह्ररम एक साथ पड़ने के कारण शस्त्र प्रदर्शन से स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है। http://www.hindustantimes.com/kolkata/saffron-camp-prepares-for-weapon-worship-in-bengal-on-bijoya-dasami/story-Q5kVlxWtFTNfyjFP6A5ouJ.html Date Accessed:11/08/2017</p> <p>विहिप का हस्ताक्षर अभियान पश्चिम बंगाल में विश्व हिंदू परिषद ने गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। खबर में कहा गया है कि विहिप की योजना है कि इस अभियान को पूरे राज्य में चलाया जाएगा और यह अक्टूबर तक जारी रहेगा। केरल, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व को छोड़कर सभी राज्यों में गोहत्या पर प्रतिबंध है। http://indianexpress.com/article/india/vishwa-hindu-parishad-to-launch-signature-campaign-to-demand-ban-on-cow-slaughter-in-west-bengal-4792842/ Date Accessed:12/08/2017</p> <p>आरएसएस का खेल आयोजन कोलकाता में आरएसएस की संस्था क्रीड़ा भारती स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण के 125 साल पूरे होने पर फुटबाल का आयोजन करेगी। इसके विजेता को फीफा अंडर-17 के विश्वकप के लिए चुना जाएगा। आरएसएस यह आयोजन खेल संस्था एकलव्य के साथ मिलकर कर रहा है। आरएसएस पहले भी पश्चिम बंगाल के कुछ पिछड़े इलाकों में अपनी पहुँच बनाने के लिए खेल आयोजन करता रहा है। http://indianexpress.com/article/india/eye-on-youths-rss-to-host-football-tournament-in-kolkata-4805831/ Date Accessed:21/08/2017</p> <p>त्रिशूल वितरण का आयोजन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पश्चिम बंगाल में त्रिशूल दीक्षा और वितरण का आयोजन करेगा। विहिप नेता प्रवीण तोगड़िया को 2003 में इस कार्यक्रम के लिए गिरफ्तार किया गया था। यह आयोजन</p>	<p>भारतीय जनता पार्टी</p> <p>राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ</p> <p>विश्व हिंदू परिषद</p> <p>राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ</p> <p>विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल</p>

<p>दशहरे से शुरू होगा। विहिप का यह आयोजन दशहरे पर शुरू होगा और पश्चिम बंगाल में 40 जगहों पर किया जाएगा।</p> <p>http://timesofindia.indiatimes.com/city/kolkata/vhp-plans-trident-show-in-bengal/articleshow/60299696.cms Date Accessed:31/08/2017</p>	
<p>पश्चिम बंगाल में मॉब लिंचिंग</p> <p>पश्चिम बंगाल के जिले जलपाईगुड़ी के गाँव में भीड़ ने दो मुस्लिमों पर हमला कर हत्या कर दी। घटना रात ढाई बजे की है, जब पशुओं से लदी गाड़ी ले जा रहे दोनों व्यक्तियों की हत्या हुई। पश्चिम बंगाल में पिछले दो महीने के दौरान मॉब लिंचिंग की यह दूसरी घटना है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया।</p> <p>http://www.hindustantimes.com/india-news/bengal-villagers-lynch-two-muslim-men-who-were-on-van-carrying-cows/story-fwLMYqKhRcynIL6jPHJfIO.html http://www.hindustantimes.com/cities/three-arrested-for-jalpaiguri-lynchings-police-rule-out-cow-vigilantism/story-rZoSShTEaXXY3dYAJLW2uO.html Date Accessed:28/08/2017</p>	स्थानीय समुदाय
<p>आरएसएस का न्यूज वीडियो</p> <p>आरएसएस ने ज्यादा लोगों तक पहुँच बनाने के लिए वीडियो बनाना शुरू किया है। प्रेरणा जनसंचार एवं शोध संस्थान कुछ मिनट का वीडियो बना रहा है जिसमें आरएसएस से जुड़ी खबरें होंगी। यह न्यूज रिपोर्ट प्रेरणा समाचार के नाम से प्रसारित की जाएंगी। प्रेरणा जनसंचार एवं शोध संस्थान राजर्षि टंडन ओपन यूनीवर्सिटी, इलाहाबाद से मान्यता प्राप्त है।</p> <p>http://indianexpress.com/article/india/to-reach-out-to-more-people-rss-launches-short-video-news-of-its-programmes-4792805/ Date Accessed:12/08/2017</p>	प्रेरणा जनसंचार एवं शोध संस्थान (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ)
<p>महाराष्ट्र में विहिप देगी गोरक्षकों को पहचान पत्र</p> <p>महाराष्ट्र में विश्व हिंदू परिषद गोरक्षकों को पहचान पत्र जारी करेगी। गोरक्षक कार्यकर्ताओं के नाम राज्य सरकार को सौंपे जाएंगे। विहिप का कहना है कि इससे असमाजिक तत्वों और गोरक्षकों के बीच पहचान करना आसान हो जाएगा। विहिप ने कहा है कि संगठन ने यह फैसला महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और अन्य दक्षिणपंथी संगठनों के साथ मीटिंग के बाद लिया है।</p> <p>https://scroll.in/latest/847071/gau-rakshaks-in-maharashtra-will-soon-be-given-identity-cards-by-the-vhp Date Accessed:13/08/2017</p>	विश्व हिंदू परिषद
<p>शबरी का राजनीतिकरण</p> <p>मिथकीय चरित्र शबरी को कला और राजनीति में अलग-अलग तरह से देखा गया है। विहिप ने गुजरात के दांग जिले में 2006 में शबरी कुंभ का आयोजन किया। यहाँ रहने वाले आदिवासी शबरी को पूर्वज मानते हैं। विहिप ने इस आयोजन के जरिए आदिवासियों का शुद्धिकरण किया और उनका पुर्नधर्मांतरण किया। कला में शबरी का चित्रण संथाल महिला, आज के समय में मजदूर महिलाओं के विस्थापन और निम्नजाति की गरीब महिला के जीवन को दिखाने के लिए किया जाता रहा है।</p> <p>https://scroll.in/magazine/842424/the-many-versions-of-shabari-from-nandalal-boses-paintings-to-hindutva-propaganda Date Accessed:13/08/2017</p>	विश्व हिंदू परिषद

<p>ओडिशा में विहिप नेता की पुण्य तिथि का आयोजन</p> <p>ओडिशा के कंधमाल जिले में भाजपा और आरएसएस ने विहिप नेता स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती की 9वीं पुण्य तिथि का आयोजन किया। ओडिशा सरकार से 2008 में मारे गए लक्ष्मणानंद सरस्वती की मौत पर रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की माँग की गयी। 2008 में कंधमाल में विहिप नेता की हत्या के बाद दंगे शुरू हो गए थे और इस दौरान सैकड़ों धर्मस्थलों पर हमला किया था और 4000 से ज्यादा घरों को जला दिया गया था।</p> <p>http://www.ptinews.com/news/9008199_BJP--RSS-observe-9th-death-anniversary-of-Laxamananda.html Date Accessed:23/08/2017</p>	<p>भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ</p>
<p>आरएसएस करेगा फिल्म फेस्टिवल का आयोजन</p> <p>आरएसएस हर साल दिल्ली में फिल्म महोत्सव का आयोजन करेगा। इसके जरिए संगठन केरल की राजनीतिक हिंसा, जम्मू और कश्मीर के मुद्दे, भारतीय परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों पर आरएसएस के नजरिए को रखेगा। 16-18 फरवरी, 2018 को इसका पहला आयोजन होगा। इसका आयोजन आरएसएस की फिल्म संस्था भारतीय चित्र साधना करेगी।</p> <p>http://www.catchnews.com/politics-news/now-an-rss-film-festival-to-promote-indian-ethos-and-slam-j-k-autonomy-78286.html Date Accessed:21/08/2017</p>	<p>भारतीय चित्र साधना (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ)</p>
<p>कांग्रेस नेता सलमान निजामी को धमकी</p> <p>माँब लिंगिंग के खिलाफ नॉट इन माइ नेम कैम्पेन के साथ जुड़े कांग्रेस के नेता सलमान निजामी को ई-मेल के जरिए धमकाया गया। सलमान निजामी को कहा गया है कि अगर वे भारत में रहना चाहते हैं तो अपना कैम्पेन बंद कर दें और मोदी का समर्थन करें।</p> <p>https://www.nationalheraldindia.com/national/congress-leader-salman-nizami-receives-life-threat Date Accessed:19/08/2017</p>	<p>प्रशांत अरोरा</p>
<p>केरल में राजनीतिक हिंसा की संस्कृति</p> <p>केरल में सीपीएम और आरएसएस के बीच चल रही राजनीतिक हिंसा के तीन दशक हो गए हैं। 2000 से 2016 के बीच केरल में 69 राजनीतिक हत्याएं दर्ज हुईं। हर हत्या के बाद बंद का आयोजन किया जाता रहा है और यह केरल में राजनीतिक चलन हो गया है। हाल ही में केरल में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के बाद तनाव की स्थिति बनी।</p> <p>http://www.firstpost.com/india/kerala-and-political-killings-as-cpm-rss-clash-heres-a-list-of-those-killed-from-both-camps-in-past-year-3875567.html Date Accessed:31/08/2017</p>	<p>सीपीएम और आरएसएस</p>
<p>केरल में आरएसएस के प्रसार की रणनीति</p> <p>केरल में आरएसएस संगठन के प्रसार के लिए आक्रामक अभियान चलाएगा। संगठन के अनुसार 2019 तक केरल में 9 लाख कार्यकर्ता जोड़े जाएंगे। आरएसएस की केरल इकाई ने दावा किया कि केरल में शाखाओं की संख्या बढ़ी है।</p> <p>http://www.news18.com/news/politics/rss-aims-to-have-9-lakh-cadres-in-kerala-by-2019-1496487.html Date Accessed:20/08/2017</p>	<p>राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ</p>

<p>उत्तरप्रदेश में बजरंग दल ने लव जेहाद का आरोप में पीटा</p> <p>मेरठ में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कम उम्र के एक लड़के को इसलिए पीटा दिया कि वह हिंदू समुदाय की एक लड़की से बात कर रहा था। बजरंग दल ने इस मामले में लव जिहाद का आरोप लगाया। पीड़ित लड़के के मान करने के बाद हमलावरों पर पुलिस ने कोई एफआईआर नहीं दर्ज की।</p> <p>http://timesofindia.indiatimes.com/city/meerut/bajrang-dal-members-assault-minor-for-practicing-love-jihad/articleshow/59851906.cms Date Accessed:31/08/2017</p>	<p>बजरंग दल</p>
<p>आंध्रप्रदेश में हटाए गए मंदिरों के पुर्ननिर्माण को लेकर प्रदर्शन</p> <p>आंध्रप्रदेश के विजयाड़ा में विहिप और हिंदू धर्म परिरक्षण समिथि ने प्रदर्शन किया और माँग की विजयवाड़ा में गिराए गए पाँच मंदिरों को सरकार फिर से बनाए। विहिप ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने पाँच लोगों की एक समिति गठित की थी लेकिन मंदिरों को फिर से नहीं बनाया गया। ये मंदिर 'कृष्णा पुष्करालू' के आयोजन के दौरान हटाए गए। यह आयोजन 12 साल में एक बार कृष्णा नदी के किनारे आयोजित किया जाता है।</p> <p>http://www.newindianexpress.com/cities/vijayawada/2017/aug/19/demolished-temples-in-vijayawada-vhp-to-take-issue-to-bjp-president-amit-shahs-notice-1645169.html Date Accessed:19/08/2017</p>	<p>विहिप, हिंदू धर्म परिरक्षण समिथि</p>
<p>गरबा पर राजनीति</p> <p>भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने माँग की गरबा के दौरान केवल उन्हें ही आना दिया जाए जिनके पास पहचान पत्र हो औ उन्होंने माथे पर तिलक लगाया हो। इसके अलावा संगठन ने पंचगव्य पिलाने की माँग की जिसमें गाय के दूध, दही, घी के अलावा गोमूत्र और गोबर मिला होता है। इसके पहले हिंदू उत्सव समिति ने गरबा पंडाल से गैर हिंदुओं को बाहर करने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य करने की माँग की थी।</p> <p>http://indianexpress.com/article/india/garba-entry-should-be-only-for-those-who-apply-tilak-drink-panchagavya-hindu-utsav-samiti-4804560/ Date Accessed:20/08/2017</p>	<p>संस्कृति बचाओ मंच, हिंदू उत्सव समिति</p>
<p>मध्यप्रदेश में धर्मांतरण का विवाद</p> <p>मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले में विनोद खरे और उनके परिवार ने इस्लाम धर्म अपना लिया। 28 साल पहले विनोद खरे ने एक मुस्लिम महिला से शादी की थी और उनका सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा था। इस मामले में आरोप है कि भाजपा और हिंदुत्ववादी संगठन परिवार को डरा-धमका रहे हैं। प्रशासन ने कहा कि इस मामले में किसी तरह के विवाद की शिकायत मिलने पर प्रशासन कार्रवाई करेगा।</p> <p>http://www.newindianexpress.com/nation/2017/aug/23/still-facing-stigma-28-years-after-fathers-marriage-to-muslim-woman-hindu-family-embraces-islam-1647309.html Date Accessed:24/08/2017</p>	<p>हिंदुत्ववादी संगठन, स्थानीय समुदाय</p>
<p>हरिद्वार में बनेगा गो तीर्थ</p> <p>हरिद्वार के कटारपुर गाँव में गो तीर्थ की स्थापना के लिए उत्तराखंड सरकार ने सहमति दे दी। इसका सुझाव आरएसएस ने दिया था। आरएसएस की ओर से कहा गया है कि कटारपुर गाँव वह जगह है जहाँ 1918 में गाय की हत्या का विरोध करने पर ब्रिटिशों ने चार हिंदुओं को फाँसी की सजा दी थी। सरकार ने कहा है कि वहाँ गो संरक्षण केन्द्र बनाया जाएगा।</p> <p>http://www.hindustantimes.com/india-news/rss-seeks-cow-pilgrimage-site-in-</p>	<p>उत्तराखंड सरकार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ</p>

<p>uttarakhand/story-u9GEhHYCySbz6OZP4T4KrL.html http://indianexpress.com/article/india/uttarakhand-govt-to-develop-village-into-cow-pilgrimage-centre-4812713/ Date Accessed:25/08/2017</p>	
<p>भाजपा नेता की गोशाला में 200 गायों की मौत छत्तीसगढ़ के राजपुर में एक गोशाला में 200 गायों की मौत हो गयी। गोशाला भाजपा नेता हरीश वर्मा का है। गोशाला की कुल क्षमता से अधिक जानवर रखने और ठीक से देख-भाल न करने के कारण गायों की मौत हो गयी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने गो सेवा आयोग पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का आरोप लगाया है। http://www.firstpost.com/politics/cow-deaths-in-chhattisgarh-as-tale-of-corruption-unfolds-congress-prepares-stand-against-govt-3959417.html Date Accessed:22/08/2017</p>	<p>भारतीय जनता पार्टी</p>
<p>आवारा जानवरों पर एसिड अटैक से विवाद आगरा के गाँव में गाय और बैलों पर एसिड अटैक का विवाद हुआ। बजरंग दल ने करमाना गाँव में दावा किया कि दर्जनों जानवरों पर अज्ञात लोगों ने एसिड फेंककर घायल किया है। ये जानवर आवारा हैं और अनुपयोगी होने के कारण लोगों ने इन्हें छोड़ दिया है। और संभव है कि खेतों की फसल नुकसान होने से स्थानीय लोगों ने खुद ही एसिड फेंककर जानवरों को घायल कर दिया हो। http://timesofindia.indiatimes.com/city/agra/bovines-attacked-with-acid-in-agra-administration-goes-into-tizzy/articleshow/60159883.cms Date Accessed:21/08/2017</p>	<p>स्थानीय लोग</p>
<p>मथुरा में आरएसएस का तीन दिवसीय कार्यक्रम 2019 के लोकसभा चुनावों की तैयारी के लिए आरएसएस ने मथुरा में तीन दिवसीय कार्यक्रम करेगा। सितंबर में इस कार्यक्रम में 40 संगठन शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में भाजपा से जुड़े हुए नेता और संगठन के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। http://timesofindia.indiatimes.com/city/agra/annual-sangh-parivar-meeting-in-mathura-to-chalk-strategy-for-2019-run-up/articleshow/60248145.cms Date Accessed:27/08/2017</p>	<p>राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ</p>
<p>मिलिट्री फार्म होंगे बंद, हिंदुत्ववादी संगठन ने की आपत्ति गौ रक्षा सेवा समिति ने भारत सरकार के मंत्रालय से कहा है कि देश भर में चल रहे सेना के 39 केन्द्रों को बंद न किया जाए जहाँ हाइब्रिड गायें तैयार की गयी हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और रक्षा मंत्रालय ने 800 करोड़ की लागत से पिछले 30 सालों में गाय की हाइब्रिड नस्ल फ्रिसवाल तैयार की है। लेकिन घाटे को देखते हुए मंत्रालय ने इन्हें बंद करने के लिए और जानवरों को बेचने के लिए कहा है। http://timesofindia.indiatimes.com/city/meerut/vigilante-group-threatens-nationwide-stir-if-military-farms-with-exotic-high-yield-cattle-are-shut/articleshow/60281772.cms Date Accessed:29/08/2017</p>	<p>गौ रक्षा सेवा समिति</p>
<p>मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने किया बकरीद पर विवाद आरएसएस के संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने बकरीद पर होने वाली कुर्बानी को 'हराम' कहकर विवाद पैदा करने की कोशिश की। आरएसएस का यह संगठन 2002 में बनाया गया था ताकि इसके जरिए अयोध्या सहित मुस्लिमों से जुड़े मुद्दों को उठाया जाए। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच लगातार इस तरह के संवेदनशील मुद्दों को आरएसएस की रणनीति के तहत उठा रहा है।</p>	<p>मुस्लिम राष्ट्रीय मंच</p>

<p>http://www.hindustantimes.com/lucknow/rss-backed-outfit-s-demand-angers-clerics/story-1wtwSLbBufafbVSDCcHOeL.html Date Accessed:30/08/2017</p>	
<p>जम्मू में सिखों पर हमला जम्मू में हिंदुत्ववादी संगठन और सिख समुदाय के बीच हिंसक घटनाएं हुई हैं। ताजा विवाद एक वीडियो को लेकर है जिसमें साक्षी भारद्वाज ने सिखों पर आपत्तिजनक टिप्पणियों की हैं। सिख समुदाय ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस में एफआईआर दर्ज कराया। इससे पहले शिवसेना ने जम्मू में सिखों पर हमला किया था। http://www.catchnews.com/india-news/hate-videos-street-attacks-how-hindutva-groups-are-targeting-sikhs-in-jammu-79409.html Date Accessed:30/08/2017</p>	<p>हिंदुत्ववादी संगठन</p>
<p>तेलंगाना में भाजपा की सात दिवसीय यात्रा भाजपा ने तेलंगाना में सात दिन की यात्रा का आयोजन करने का निर्णय लिया है। भाजपा ने कहा है कि 17 सितंबर के दिन को राज्य की आजादी के दिन के रूप में मनाया जाए। योजना के अनुसार 1 सितंबर से शुरू हुई यात्रा राज्य के अलग-अलग जिलों से होकर गुजरेगी। 1948 में भारत में निजाम शासन वाले राज्य का विलय हुआ था। इस आयोजन को लेकर कहा जा रहा है कि इससे सांप्रदायिक सौहार्द की स्थिति बिगड़ सकती है। http://www.livemint.com/Politics/a4cjIGfEYRVUeO8YVwqFMO/BJP-to-press-for-17-September-as-Telanganas-liberation-day.html Date Accessed:31/08/2017</p>	<p>भारतीय जनता पार्टी</p>
<p>शिक्षा का भगवाकरण</p>	
<p>आरएसएस विचारक की जन्म शती पर स्कूलों में आयोजन दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी के आयोजन में यूपी में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राज्य भर में 9वीं और 10वीं कक्षा के 11लाख छात्र शामिल हुई। इस प्रतियोगिता में ज्यादातर सवाल आरएसएस, मोदी सरकार की योजनाओं, हिंदू मिथक पर थे। http://timesofindia.indiatimes.com/city/bareilly/11-lakh-up-school-students-take-bjp-test/articleshow/60237891.cms Date Accessed:26/08/2017</p>	<p>राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उत्तरप्रदेश सरकार</p>
<p>इतिहास की किताब पर आईसीएचआर की आपत्ति इतिहासकार अर्जुन देव की एक किताब को इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टॉरिकल रिसर्च प्रकाशन की अनुमति नहीं दे रहा है। अर्जुन देव ने अपने बयान में कहा है कि इस किताब में आजादी आंदोलन के दौरान संघ परिवार से जुड़े दस्तावेज हैं। खबर में कहा गया है कि आईसीएचआर को हिंदू महासभा और श्यामा प्रसाद मूकर्जी के भाषणों से जुड़े दस्तावेजों को लेकर आपत्ति है। https://thewire.in/171150/ichr-sangh-freedom-struggle-manuscript/ Date Accessed:27/08/2017</p>	<p>इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टॉरिकल रिसर्च</p>
<p>महाराष्ट्र सरकार ने हटाया मुगलों पर पाठ महाराष्ट्र में 7वीं और 9वीं कक्षा की इतिहास की किताबों में मुगलों और मुस्लिम शासकों पर कोई अध्याय नहीं होगा। किताब में छत्रपति शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य पर अध्याय होगा।</p>	<p>महाराष्ट्र सरकार</p>

<p>http://www.newsx.com/national/71352-mughals-make-way-to-accommodate-bofors-scam-and-emergency-in-maharashtra-textbooks Date Accessed:9/08/2017</p>	
<p>गुजरात विश्वविद्यालय की किताबों में अहमदाबाद हुआ 'कर्णावती' 2 अगस्त को गुजरात विश्वविद्यालय ने एक सकर्युलर जारी किया कि बीए, बी.कॉम. और बी.एससी. के छात्रों को ऐतिहासिक विरासत भी पढ़ाया जाएगा। इससे जुड़ी किताबों में अहमदाबाद को कर्णावती बताया गया है। जबकि इतिहासकारों का मत है कि इसका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है और अहमदाबाद को 1411 में अहमद शाह ने बसाया था। हिंदुत्ववादी संगठन काफी समय से कर्णावती नाम का इस्तेमाल करते आए हैं। http://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/ahmedabad-to-be-karnavati-in-gu-books/articleshow/59994415.cms Date Accessed:10/08/2017</p>	<p>गुजरात विश्वविद्यालय</p>
<p>उत्तरप्रदेश और हरियाणा के पाठ्यक्रम में आरएसएस विचारकों पर पाठ उत्तरप्रदेश सरकार योजना बना रही है कक्षा 1 से 8 वीं तक की किताबों में आरएसएस विचारक दीनदयाल उपाध्याय पर एक कॉमिक बुक पढ़ाया जाए। इन किताबों का प्रकाशन दीनदयाल उपाध्याय सेवा प्रतिष्ठान और डॉ श्यामा प्रसाद मूकर्जी रिसर्च फाउंडेशन ने किया है। इन किताबों को 14 भाषा में प्रकाशित किया गया है। हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में दीनदयाल उपाध्याय, एमएस गोलवलकर और वीडी सावरकर को शामिल किया गया है। http://www.catchnews.com/politics-news/deendayal-comic-strip-in-up-schools-haryana-univs-to-teach-golwalkar-savarkar-76767.html Date Accessed:11/08/2017</p>	<p>दीनदयाल उपाध्याय सेवा प्रतिष्ठान, डॉ श्यामा प्रसाद मूकर्जी रिसर्च फाउंडेशन, हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय</p>
<p>हरियाणा विश्वविद्यालय में गाय पर जोर हरियाणा में स्नातक के छात्रों को गाय के महत्व के बारे में पढ़ाया जाएगा। गोसेवा आयोग के चेयरमैन भानी राम मंगला की योजना है कि वे राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में जाएंगे और गाय के महत्व के बारे में व्याख्यान देंगे। इसके अलावा इस विषय पर आयोग किताबों का प्रकाशन करेगा जिसे छात्रों में बाँटा जाएगा। http://www.hindustantimes.com/india-news/now-undergraduate-students-in-haryana-to-learn-why-cow-is-called-the-mother/story-XfIQ609fZRf6J1PxDa1nL.html Date Accessed:19/08/2017</p>	<p>हरियाणा विश्वविद्यालय, गोसेवा आयोग</p>
<p>महाराष्ट्र सरकार ने खरीदीं आरएसएस की किताबें महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की किताबों को खरीदने के लिए 4करोड़ रूपए खर्च किया। ये किताबें दीनदयाल उपाध्याय पर आधारित हैं। इन किताबों को राज्य भर के 12,000 पुस्तकालयों में मुफ्त में बाँटा जाएगा। ये किताबें प्रभात प्रकाशन ने छापी हैं। किताब में 1940 से 1968 के बीच के दीनदयाल उपाध्याय के भाषण, पत्र, लेखन आदि को शामिल किया गया है। http://www.hindustantimes.com/mumbai-news/maharashtra-government-spends-rs4-crore-to-buy-rss-icon-s-books-for-12-000-libraries-in-state/story-WVUuSOXtjvY8yqT7H6e31H.html Date Accessed:29/08/2017</p>	<p>महाराष्ट्र सरकार, प्रभात प्रकाशन</p>

न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रिया

दादरी लिंगिंग केस में मुख्य आरोपी को जमानत

दादरी लिंगिंग केस में मुख्य आरोपी विशाल राना को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली। विशाल राना नोएडा के एक भाजपा नेता का बेटा है। 2015 में मोहम्मद अखलाक की हत्या कर दी गयी थी। इस केस में गिरफ्तार हुए ज्यादातर आरोपियों को जमानत मिल चुकी है।

<http://www.newindianexpress.com/nation/2017/aug/01/key-accused-in-dadri-lynching-case-granted-bail-by-allahabad-hc-1636739.html>

Date Accessed:1/08/2017

गोरखपुर दंगा: योगी पर मुकदमे की याचिका स्वीकृत

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गोरखपुर दंगा मामले में उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा चलाने संबंधी याचिका स्वीकार कर ली। जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस अखिलेश चंद्र शर्मा की बेंच परवेज परवाज और असद हयात की याचिका को मंजूर करते हुए टिप्पणी की कोर्ट को यह अधिकार है कि वह सरकार के मुकदमा न चलाने के फैसले को खारिज करके मामले की सुनवाई कर सकता है। आदित्यनाथ पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है।

<https://scroll.in/latest/845670/gorakhpur-riots-hc-agrees-to-hear-plea-challenging-up-governments-refusal-to-prosecute-adityanath>

Date Accessed:1/08/2017

ससिकुमार हत्याकांड में संदिग्ध गिरफ्तार

सितंबर 2016 में हिंदू मुन्नानी कार्यकर्ता ससिकुमार की हत्या में सीआईडी ने सद्दाम हुसेन को गिरफ्तार किया। सीआईडी हुसेन और एक अन्य संदिग्ध मुबारक को तलाश रही थी। इस केस में इससे पहले भी एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी थी।

<http://www.thehindu.com/news/cities/chennai/one-more-suspect-held-in-sasikumar-murder-case/article19404815.ece>

Date Accessed:2/08/2017

भागलपुर दंगा: कामेश्वर यादव की रिहाई के खिलाफ याचिका

बिहार सरकार ने भागलपुर दंगे में पटना हाइकोर्ट से रिहा किए गए कामेश्वर यादव की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दी। पटना हाइकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि पुलिस जाँच में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि कामेश्वर यादव दंगों में शामिल था।

<http://www.hindustantimes.com/india-news/bihar-to-move-apex-court-against-bhagalpur-riots-life-term-convict-s-acquittal-release/story-8u0kWjEdXnn8puAtRSbeiO.html>

Date Accessed:4/08/2017

दक्षिण कर्नाटक में इंटेलेजेंस में हैं कमियाँ

कर्नाटक स्टेट माइनोंरिटी कमीशन ने कहा है कि दक्षिण कन्नड़ में सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए इंटेलेजेंस की कमियों पर टिप्पणी की है। आयोग न पुलिस को कहा है कि उन्हें सोशल मीडिया की निगरानी करन चाहिए और उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। आयोग ने कहा है कि पुलिस के तरीके पुराने हैं और इनमें सुधार की जरूरत है।

<http://timesofindia.indiatimes.com/city/mangaluru/intelligence-wing-in-dakshina-kannada-is-very-week-commission/articleshow/59932451.cms>

Date Accessed:5/08/2017

सूत्रखेड़ा हत्याकांड: आरएसएस कार्यकर्ताओं की रिहाई

मध्यप्रदेश की हाइकोर्ट बेंच ने दो मुस्लिमों की हत्या के मामले आरएसएस के पाँच कार्यकर्ताओं को दोषी नहीं पाया। घटना 30 दिसंबर, 2007 की है। सुनील जोशी की हत्या के बाद हिंदुत्ववादी संगठनों ने बंद का आयोजन किया था और सिमी कार्यकर्ताओं पर हत्या का आरोप लगाया था। इसी दौरान देवास जिले के गाँव में एक परिवार के दो व्यक्तियों की हमले में मौत हो गयी थी। इस घटना में एसिड फेंकने से दो अन्य लोग घायल हो गए थे। इस मामले में इन पाँच कार्यकर्ताओं के अलावा अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई।

<http://indianexpress.com/article/india/five-rss-men-acquitted-in-killing-of-2-muslims-4784347/>

Date Accessed:6/08/2017

अयोध्या विवाद पर दिसंबर में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के विवाद की सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले आठ भाषाओं में मौजूद कागजातों का अंग्रेजी में अनुवाद किया जाए। इसके लिए कोर्ट ने तीन महीने का समय दिया है। कोर्ट में करीब अयोध्या विवाद से संबंधित 20 याचिकाओं पर सुनवाई हुई।

<http://www.hindustantimes.com/india-news/sc-decides-to-hold-final-hearing-in-ayodhya-title-dispute-from-december-5/story-3eCPMVXSCtAoQOIXb2RUvI.html>

Date Accessed:11/08/2017

रामगढ़ लिचिंग: फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई

झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ लिचिंग केस की तेज सुनवाई के लिए एक अदालत गठित किया। 29 जून को रामगढ़ कस्बे में भीड़ ने अलीमुद्दीन अंसारी की हत्या कर दी थी। इस भीड़ में बजरंग दल के कार्यकर्ता भी शामिल थे जिन्होंने मृतक की गाड़ी को जला दिया था। संभवतः माँब लिचिंग केस में देश में पहली बार फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है।

<http://www.hindustantimes.com/india-news/jharkhand-fast-track-court-to-try-ramgarh-lynching-case/story-rhnGG8ewQnMccwI03KPYJ.html>

Date Accessed:11/08/2017

वड़ोदरा दंगे में दो अपराधियों पर शक

वड़ोदरा में पुलिस ने गणेश चतुर्थी पर हुए दंगे की जाँच में दो हिस्ट्रीशीटर की भूमिका की बात कही है। लालू एंडू और अज्जू केनियो की मुलाकात का एक वीडियो मिला है जिसके कुछ देर बाद ही दंगे शुरू हो गए। इससे पहले पुलिस ने जुनेद और अयूब की गिरफ्तारी की थी जिन्हें दो दिन की जेल के बाद रिमांड पर रिहा कर दिया गया था।

<http://timesofindia.indiatimes.com/city/vadodara/history-sheeters-held-a-meeting-before-rioting/articleshow/60050293.cms>

Date Accessed:14/08/2017

बंटवाल हत्याकांड में पीएफआई कार्यकर्ता गिरफ्तार

दक्षिण कन्नडा जिले में पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दो कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कार्यकर्ताओं पर बंटवाल कस्बे में आएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप है। इससे पहले पीएफआई के एक कार्यकर्ता की हत्या में बजरंग दल शामिल था। भाजपा बंटवाल हत्याकांड में एनआईए जाँच की माँग कर रही है।

<http://indianexpress.com/article/india/two-pfi-activists-held-in-rss-workers-murder-case-4798700/>

Date Accessed:16/08/2017

सिख दंगे मामले में समिति करेगी तीन महीने जाँच

1984 के सिख विरोधी दंगे से जुड़े 199 मामलों की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दो रिटायर्ड जजों की समिति बनाया है। कोर्ट ने समिति से कहा है कि तीन महीने में जाँच पूरा करके रिपोर्ट बने। इससे पहले एसआईटी ने इन मामलों को बंद करने के लिए कहा था।

<http://www.dnaindia.com/india/report-supreme-court-panel-to-assess-241-anti-sikh-riots-cases-2532347>

Date Accessed:17/08/2017

मुजफ्फरनगर दंगे में 13 लोग रिहा

मुजफ्फरनगर दंगे में सबूतों की कमी के कारण अदालत ने 13 लोगों को रिहा कर दिया। इन पर शामिलों में अब्दुल वाहिद के घर पर हमला करके तीन लोगों की हत्या का मामला चल रहा था। इस मामले में 15 लोग गिरफ्तार किए गए थे जिनमें से दो की जेल में मौत हो गयी थी।

<http://timesofindia.indiatimes.com/city/bareilly/muzaffarnagar-court-acquits-13-accused-of-murdering-three-of-family-during-the-2013-riots/articleshow/60108728.cms>

Date Accessed:17/08/2017

उत्तरप्रदेश में पुलिस थानों में मनेगी जन्माष्टमी

उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने बयान दिया है कि वह पुलिस थानों में जन्माष्टमी पर रोक नहीं लगा सकते हैं और यह उसी तरह है जैसे वह ईद के दौरान सड़क पर नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकते। समाजवादी पार्टी की सरकार ने उत्तरप्रदेश में जन्माष्टमी मनाने पर रोक लगाया था। काँवड़ यात्रा के दौरान बजने वाले डीजे पर रोक लगाने से भी सरकार ने मना किया।

<http://indianexpress.com/article/india/if-i-cannot-stop-namaz-on-road-i-have-no-right-to-stop-janmashtami-at-thana-yogi-adityanath-4800088/>

Date Accessed:19/08/2017

बांबे हाइकोर्ट: मीट ट्रेडर्स को सुरक्षा दे सरकार

बांबे हाइकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है कि वह मांस विक्रेताओं की सुरक्षा करे। इससे पहले इस संबंध में एक याचिका दाखिल हुई थी जिसमें कहा गया था कि महाराष्ट्र में गोरक्षकों के हमले को देखते हुए मांस विक्रेताओं को 24 घंटे सुरक्षा दी जाए और आत्मरक्षा के लिए बंदूक रखने का लाइसेंस भी जारी किया जाए।

<http://www.dnaindia.com/india/report-bombay-hc-issues-notice-to-maha-govt-over-petition-seeking-security-for-meat-traders-2537302>

Date Accessed:21/08/2017

भाजपा आईटी सेल के सेक्रेटरी की जमानत अस्वीकृत

बीरभूम कोर्ट ने फर्जी वीडियो पोस्ट करने के मामले में भाजपा आईटी सेल के सेक्रेटरी की जमानत को दूसरी बार अस्वीकार कर दिया। तरुण सेन गुप्ता को आसनसोल में गिरफ्तार किया गया था और उन पर सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो लगाने का आरोप है। इस वीडियो में एक मुस्लिम पुलिस अधिकारी को एक हिंदू को पीटते हुए दिखाया गया था।

<https://scroll.in/latest/848217/west-bengal-birbhum-court-rejects-bjp-it-cell-secretarys-bail-plea-twice-in-a-fake-video-case>

Date Accessed:23/08/2017

केरल में आपत्तिजनक पैम्फलेट बाँटने पर गिरफ्तारी

केरल के एर्नाकुलम जिले के बडक्केकरा में आपत्तिजनक पैम्फलेट बाँटने के मामले में पुलिस ने 39 संदिग्धों की गिरफ्तारी की। इसके पीछे कम चर्चित अतिवादी इस्लामिक संगठन विज्डम ग्लोबल इस्लामिक मिशन का हाथ है। इसमें गैर-मुस्लिमों को इस्लाम अपनाने के लिए कहा गया था। पुलिस ने इसमें आईपीसी की धारा 153 Aके तहत कार्रवाई की है और जाँच कर रही है।

<http://www.deccanchronicle.com/nation/in-other-news/230817/mujahid-arrests-to-appease-sangh-says-mp-p-k-kunhalikutty.html>

Date Accessed:23/08/2017

सांप्रदायिक तनाव से रोकने के लिए विसर्जन का दिन टाला

ममता बनर्जी ने कहा है कि दुर्गा पूजा और मुहर्रम पर तनाव की संभावना को रोकने के लिए 1 अक्टूबर को मूर्तियों का विसर्जन नहीं किया जाएगा। विसर्जन मुहर्रम के अगले दिन 2 अक्टूबर से 4 अक्टूबर के बीच किया जाएगा। भाजपा ने इसके खिलाफ अदालत जाने की बात कही है।

<http://indianexpress.com/article/india/no-immersion-on-oct-1-to-avoid-clash-with-muharram-mamata-banerjee-4810783/>

Date Accessed:24/08/2017

नरोदा गाम केस की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की अदालत को कहा है कि 2002 के नरोदा गाम हत्याकांड की सुनवाई चार महीनों में पूरी की जाए। इस घटना में अल्पसंख्यक समुदाय के 11 लोग मार दिए गए थे। सुप्रीमकोर्ट की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि बचाव पक्ष के बाकी गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए जाएं।

<http://www.hindustantimes.com/india-news/gujarat-riots-supreme-court-asks-trial-court-to-decide-case-in-4-months/story-Tb10sBE978qI5WsPZesD7O.html>

Date Accessed:25/08/2017

केरल पुलिस की रिपोर्ट में धर्मांतरण की पुष्टि

केरल पुलिस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में हुई कुछ घटनाओं में धर्मांतरण कराने की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि

कट्टरपंथी संगठन 'दावा स्कवाड'ने युवा का धर्मांतरण कराया है। खास तौर पर एज़वा समुदाय इस संगठन के निशाने पर है। त्रिशूर में 23 और पलक्कड़ में पिछले दो साल में 139 लोगों को धर्मांतरित किया गया है। इसके अलावा कन्नूर, कोझिकोड, मलप्पुरम, पलक्कड़ और त्रिशूर में काफी संख्या में धर्मांतरण हुआ है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केरल के लव जेहाद से जुड़े एक मामले में एनआईए से जाँच करने के लिए कहा है। मुस्लिम युवक शफीन पर हिंदू लड़की को फुसलाकर शादी करने और जबर्न धर्मांतरण का आरोप है।

<http://www.newindianexpress.com/states/kerala/2017/aug/26/after-denial-the-admission-love-jihad-a-reality-in-kerala-1648346--1.html>

<https://satyagrah.scroll.in/article/109026/kerala-love-jihad-supreme-court-nia>

Date Accessed:26/08/2017

सुप्रीम कोर्ट: गुजरात सरकार की मुआवजा नीति से हो धर्म-स्थलों की क्षति का आकलन

गुजरात हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि दंगों के दौरान क्षतिग्रस्त धर्मस्थलों का सरकार फिर से निर्माण करे। गुजरात सरकार ने सुप्रीमकोर्ट में इसे चुनौती थी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है कि गुजरात सरकार की मुआवजा नीति ठीक है और उसी के तहत धर्म-स्थल के नुकसान का भी आकलन करके मुआवजा दिया जाए।

<http://indiatoday.intoday.in/story/supreme-court-gujarat-high-court-rebuilding-mosques-shrines-damaged-2002/1/1036128.html>

Date Accessed:29/08/2017

हिंडोली वीडियो जाँच में फर्जी साबित

राजस्थान के हिंडोली में 81 साल के अब्दुल अंसारी पर एक राजपूत लड़की से छेड़छाड़ का आरोप था। इससे संबंधित एक वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा, बजरंग दल, विहिप, करणी सेना ने प्रदर्शन किया था और अब्दुल अंसारी के घर और संपत्ति को नुकसान पहुँचाया था। पुलिस ने जाँच में पाया है कि वीडियो फर्जी है। आरोपी अभी भी जेल में है।

<https://www.thequint.com/news/india/police-admit-molestation-video-fake-but-accused-still-in-jail>

Date Accessed:29/08/2017

शाहजहाँपुर में सोशल पोस्ट पर गिरफ्तारी

शाहजहाँपुर में सोशल साइट पर योगी आदित्यनाथ की एक आपत्तिजनक तस्वीर लगाने के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इस मामले में हिंदू युवावाहिनी के कार्यकर्ताओं ने सैलून चलाने वाले आरोपी युवकों को पीटा था। पुलिस ने पिटाई करने के चलते हिंदू युवावाहिनी के कार्यकर्ताओं पर भी केस दर्ज किया है।

<http://indianexpress.com/article/cities/lucknow/uttar-pradesh-arrested-for-slapping-constable-cops-thrashed-mainpuri-district-convenor-in-custody-says-hindu-yuva-vahini-4821654/>

Date Accessed:31/08/2017

नरोदा पाटिया दंगा: गुजरात हाईकोर्ट ने याचिकाओं पर फैसला किया सुरक्षित

गुजरात हाईकोर्ट ने 2002 के नरोदा पाटिया दंगा केस में एसआईटी कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका और एसआईटी की ओर से दाखिल याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। एसआईटी ने 29 आरोपियों को बरी करने के खिलाफ याचिका दी थी। याचिका की सुनवाई जस्टिस हर्ष देवानी और एस सुपेहिया कर रहे थे।

<http://indianexpress.com/article/india/naroda-patiya-riots-case-hearing-over-gujarat-hc-reserves-verdict-4821597/>

Date Accessed:31/08/2017

मालेगाँव केस में कर्नल पुरोहित को सशर्त जमानत

मालेगाँव ब्लास्ट के आरोपी कर्नल प्रसाद पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई। एनआईए ने कर्नल पुरोहित की जमानत का विरोध किया है। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुरोहित की जमानत से इंकार किया था। सेना ने पहले ही कर्नल पुरोहित को क्लीन चिट दे चुका है।

<https://khabar.ndtv.com/news/india/malegaon-blast-lieutenant-colonel-shrikant-purohiths-profile-1740000>

Date Accessed:31/08/2017

सांप्रदायिक घटनाओं का आँकड़ा

उत्तरप्रदेश में सबसे ज्यादा सांप्रदायिक घटनाएं

गृहमंत्रालय द्वारा जारी किए गए आँकड़ों के अनुसार इस साल 296 सांप्रदायिक घटनाएं हुईं। उत्तरप्रदेश में सबसे ज्यादा 60 घटनाएं हुईं, जिनमें 16 लोग मारे गए। इससे पहले 2016 में उत्तरप्रदेश में 162 घटनाएं हुई थीं। इसके अलावा कर्नाटक, मध्यप्रदेश, राजस्थान और बंगाल सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावित हुए।

<http://indianexpress.com/article/india/up-witnesses-296-communal-incidents-in-2017-highest-so-far/>

Date Accessed:9/08/2017

Connect with RGICS at: info@rgics.org; www.rgics.org



सूचना: यह केवल निजी प्रसार के लिए है। सभी लेख, खबरें मूल लेखों और खबरों का सार-संक्षेप है और इनके शीर्षकों में कहीं-कहीं बदलाव किया गया है।